



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

The notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of GlobalSpace Technologies Limited (The Company) will be held on Friday, November 26, 2021 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conferencing, to transact the Business, as set out in the Notice of AGM. The Electronic copies of the Notice of AGM have been sent on October 23, 2021 to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) as on October 22, 2021 in accordance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 along with SEBI circulars dated May 12, 2020. An advertisement requesting shareholders to register their mail id was published in newspaper dated October 21, 2021. The same is also available on Bombay Stock Exchange website https://www.bseindia.com/ and on the NSDL website www.evoting.nsdl.com

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Thursday, November 18, 2021 may cast their vote electronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of NSDL from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

- i. the Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
ii. the remote e-voting shall commence on Monday, November 22, 2021 (9.00 A.M.);
iii. the remote e-voting shall end on Thursday, November 25, 2021 (5.00 P.M.);
iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, November 18, 2021
v. any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date Thursday, November 18, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at following email id's: evoting@nsdl.co.in or issuer@RTA.

- Members may note that:
a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
b) The facility for voting at the AGM shall be made available through e-voting by NSDL;
c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of www.evoting.nsdl.com, or email at evoting@nsdl.co.in, Tel: 1800-222-990 or contact the company on email at cs@globalspace.in who will also address grievances connected with the voting by electronics means.

For and on behalf of GlobalSpace Technologies Limited
Place: Navi Mumbai
Date: October 24, 2021
Company Secretary and Compliance Officer



switch to smart

Orient Electric Limited

Registered Office: Unit VIII, Plot No. 7, Bhojnagar, Bhubaneswar-751012, Odisha
Tel: 0674-2396930, Fax: 0674-2396364, Email: investor@orientelectric.com
Website: www.orientelectric.com, CIN: L31100OR2016PLC025892

Extract of Un-Audited Financial Results for the quarter & half year ended 30 Sep'21 (INR in crores)

Table with 5 columns: S.No., Particulars, Quarter ended (30-Sep-2021, 30-Sep-2020), Half year ended (30-Sep-2021). Rows include Total Revenue, Net Profit, Total Comprehensive Income, Equity Share Capital, etc.

Note:

- 1. The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on October 23, 2021.
2. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2021 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website (www.orientelectric.com).

For Orient Electric Limited
Place: New Delhi
Dated: October 23, 2021
Managing Director & CEO

Crompton

Crompton Greaves Consumer Electricals Limited

CIN : L31900MH2015PLC262254

Registered & Corporate Office: Tower 3, 1st Floor, East Wing, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai 400070, India
Tel.: +91-22-6167 8499 Fax: +91-22-6167 8383 E-mail: crompton.investorrelations@crompton.co.in Website: www.crompton.co.in

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021

Table with 14 columns: Sr. No., Particulars, CONSOLIDATED (Quarter Ended, Half Year Ended, Year Ended), STANDALONE (Quarter Ended, Half Year Ended, Year Ended). Rows include Total income from operations, Net Profit, Total comprehensive income, etc.

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Half-year end financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Half-year end financial results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website i.e. www.crompton.co.in.

For and on behalf of
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
Shantanu Khosia
Managing Director
DIN: 00059877

Place : Mumbai
Date : 22nd October, 2021

VENKATESHWARA INDUSTRIAL PROMOTION CO. LTD
Regd. Off. : 90, Phears Lane, 6th Floor, Room no. 603 Kolkata-700 012, Email ID : vipci21@hotmail.com, CIN : L65909WB1981PLC033333

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of Venkateshwara Industrial Promotion Co. Ltd. will be held at the registered office of the Company on Monday, 1st November, 2021 at 10.00 A.M. to approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2021. In this connection, as informed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons covered under the aforesaid code.

By Order of the Board For Venkateshwara Industrial Promotion Co. Ltd.
Sd/-
Ekta Kedia
Company Secretary

HAMILTON POLES MANUFACTURING CO. LTD
Regd. Off. : 221, Rabindra Sarani, 3rd Floor, Kolkata-700007
Email ID : hamiltonpoles@rediffmail.com, CIN : L28951WB1981PLC033462

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of HAMILTON POLES MANUFACTURING CO. LTD will be held at the registered office of the Company on Monday, 1st November, 2021 at 02.30 P.M. to consider and take on record, inter-alia the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2021. In this connection, as informed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons covered under the aforesaid code.

By Order of the Board For Hamilton Poles Manufacturing Co.Ltd
Sd/-
Shilpi Agarwal
Company Secretary

ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

NOTICE INVITING TENDER NO. 21/5
E-bids in two parts viz. 1) Techno-Commercial Bids and 2) Price Bids, with validity up to 360 days are hereby invited from reputed Original Equipment Manufacturers for supply of 33/11 kV, 10 MVA & 5 MVA Transformers with associated accessories as per relevant IS/IEC standards under "SOPD 2021-22". Interested bidders may view the detailed Request for Proposal (RFP) on website www.assampowers.com as well as www.apdcl.org.

Jaykay Enterprises Limited
(CIN: L99999UP1961PLC001187)
Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur - 208 001 (India)
Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665
E-Mail: prabhat.mishra@jaykayenterprises.com; Website: www.jaykayenterprises.com

NOTICE CHANGE IN REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT

Notice is hereby given to the Stakeholders of Jaykay Enterprises Limited, ('the Company') that on August 13, 2021, the Company decided to permanently close its in-house Registrar and Share Transfer Agent activities subject to completion of the necessary formalities in accordance with the SEBI (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 and appointed M/s Alankit Assignments Limited as Registrar and Transfer Agent and the same is scheduled by NSDL to be carried out on October 23, 2021. Consequent to the change, M/s Jaykay Enterprises Ltd. will stop acting as R&T Agent for electronic connectivity w.e.f. BOD of October 23, 2021 and M/s Alankit Assignments Ltd. shall commence as the R&T Agent on October 23, 2021. Shareholders, Beneficial Owners, Depository Participants and all other concerned are requested to send/deliver the documents/correspondence relating to the Company's securities to the below mentioned address: Mr. Jagdeep Kumar Singla, Sr. Manager, Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Email: jksingla@alankit.com. Telephone: +91-11-4254-1234 & Fax: 91-11-4254-1201. Also, for the benefit of the shareholders, the documents will continue to be accepted at the Registered Office of the Company. Please send the documents addressed to the undersigned for early grievance redressal.

For Jaykay Enterprises Limited
Sd/-
(Prabhat Kumar Mishra)
CFO & Company Secretary
Membership No. ACS29900
Place : Kanpur
Date : 23rd October, 2021

TAMIL NADU MEDICAL SERVICES CORPORATION LTD.

(A Government of Tamilnadu Undertaking)
No.417, Pantheon Road, Egmore, Chennai-600 008. Phone : 28191890 / 28190259; Fax: 044 -28190636. E-Mail : equipment.tnmsc@tn.gov.in

INVITATION FOR BIDS FOR LOCAL COMPETITIVE BIDDING

(1) The Government of Tamil Nadu has received a Loan (Loan No. ID-P251) from the Japanese International Cooperation Agency (JICA) towards the cost of Tamil Nadu Urban Healthcare Project and it is intended that part of the proceeds will be applied to eligible payments under the contracts for which this Invitation for Bids is issued. (2) The General Manager (Equipment), TNMSC Ltd. now invites online bids from eligible bidders for supply of the following goods:

Table with 5 columns: S.No, Tender No., Equipment and Quantity with nos. in bracket, Description, and Bid opening details. Rows include Electronic White board, Injection training arm, Anatomy all organs charts, etc.

Table with 5 columns: Sl. No., Document cost, Sale period, Pre-bid Meeting, Submission of bid, Opening of bid. Rows include 1-10 with various costs and dates.

3. For details visit www.tenders.tn.gov.in and TNMSC website www.tnmsc.tn.gov.in
4. All bids must be accompanied by a bid security in Indian rupees as specified in the bid document.
DIPR/3069/TENDER/2021

LUMAX Lumax Industries Limited
Regd. Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Mangal Raya, New Delhi-110046
Website: www.lumaxworld.in, lumaxindustries.net; Tel: 011-49857832
Email: lumaxshare@lumaxmail.com, CIN: L74899DL1981PLC012804

NOTICE
Notice is hereby given that the following Share Certificates have been reported lost/misplaced by the Shareholders of the Company and the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned shareholders:

Table with 6 columns: S. No., Name of the Shareholders, Folio No., Certificate No.(s), Distinctive No.(s), No. of Shares. Rows include SUSHHEEL SETH, SEEMA AGARWAL, and a TOTAL row.

Any person who has any claim in respect of the above said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office at the address given above within 15 days of publication of this notice. After the expiry of 15 days, no claim will be entertained and the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates.

For LUMAX INDUSTRIES LIMITED
PANKAJ MAHENDRU
COMPANY SECRETARY
M.NO. A28161
Place: New Delhi
Date: 23.10.2021

ProYuga Advanced Technologies Limited
CIN: U74999MH2017PLC296222
Regd Office: 1609, Loda Supreme Powai, Saki Vihar Road, Opp MTNL Office, Mumbai-400072, Maharashtra, India, Tel: 8008858565
Email ID: company@proyuga.tech Website: https://www.proyuga.tech/

NOTICE
Notice is hereby given that the 4th Annual General Meeting (AGM) of the Members of ProYuga Advanced Technologies Limited ('the Company') will be held on Monday, November 15, 2021 at 10:00 a.m. (IST) via two-way Video Conferencing (VC) facility / Other Audio Visual Means ('OAVM') ONLY, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), the Company has sent the Notice of the 4th AGM along with the link to the Integrated Annual Report for FY 2020-21 on Saturday, September 23rd, 2021 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars. The Integrated Annual Report 2020-21 of the Company, inter alia, containing the Notice of the 4th AGM is available on the website of the Company at https://www.proyuga.tech/.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Meetings and Administration) Rules, 2014 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system from place other than the venue of the AGM (remote e-voting). Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cutoff date of November 10, 2021 shall be entitled to remote e-voting, any person who has become member after dispatch of notice and before the cut-off date may obtain the login id and password by sending request mail to evoting@nsdl.co.in. Remote E-Voting period commences on Friday, November 12, 2021 (09.00 a.m.) IST and ends on Sunday 14, 2021 (05.00 p.m.) IST. Remote E-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Contact Details of Person Responsible to address the grievances connected with the e-voting: Mr Swapneel Puppala, Telephone: 0265-2280180 Email: SwapneelP@nsdl.co.in or members can also write to the Company Secretary of the Company at the Company's email address company@proyuga.tech

For and on behalf of ProYuga Advanced Technologies Limited,
Prince Pandey
Company Secretary
Date: October 24, 2021
Place: Mumbai
Membership No.: A59040



HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED

Regd. Office: 'Rahejas', 4th Floor, Corner of Main Avenue & V.P. Road, Santacruz (West), Mumbai - 400054
Tel: 91-22-26001306 Fax: 91-22-26001307
CIN: L64204MH1959PLC011421

Website: www.hathway.com; E-mail: info@hathway.net

NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY

Members of the Company are hereby informed that a Postal Ballot Notice, seeking members' consent on the resolution set out in the said Notice has been sent electronically to the members whose e-mail address is registered with the Company/Link Intime India Private Limited, Company's Registrar and Transfer Agent/Depository Participant(s) as on Friday, October 15, 2021 i.e. the Cut-Off Date. The Company has completed electronic dispatch of the Postal Ballot Notice on Saturday, October 23, 2021.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.hathway.com, on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Private Limited ('KFinTech') at https://evoting.kfintech.com. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites. The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and members seeking to inspect such documents can send an e-mail to info@hathway.net.

Instruction for e-voting:

In accordance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote on the resolution proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means ('e-voting'). The communication of the assent or dissent of the members would take place through remote e-voting process only. The Company has engaged the service of KFinTech as the agency to provide e-voting facility. Members may cast their votes during the period mentioned herein below:

Table with 2 columns: Commencement of remote e-voting, End of remote e-voting. Rows show dates and times for Sunday, October 24, 2021 and Monday, November 22, 2021.

E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period.

Manner of e-voting by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and members who have not registered their email address has been provided in the Postal Ballot Notice. The manner in which persons who have forgotten the User ID and Password, can obtain/generate the same, has also been provided in the said Notice.

A person whose name is recorded in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date shall only be considered eligible for the purpose of e-voting. Voting rights of a member/beneficial owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. A person who becomes a member after the Cut-Off Date should treat this notice for information purpose only.

Manner of registering / updating email address:

(a) Members who hold shares in physical mode and have not registered/updated their e-mail address with the Company, can register/update their e-mail address with Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent, by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html on the website www.linkintime.co.in under the Investor Services tab by choosing the E-mail / Bank Registration heading and following the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and e-mail id and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format. (upto 1 MB). In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

(b) Members holding shares in dematerialised mode and have not registered / updated their email address with their Depository Participants, can register / update their email address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts. The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. November 23, 2021. The results of e-voting will be announced on Tuesday, November 23, 2021 and will be displayed on the Company's website www.hathway.com and communicated to the Stock Exchanges and National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited and KFinTech. The Company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered Office.

In case of any query on e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections/ E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting: https://evoting.kfintech.com.

Contact details for addressing e-voting relating queries/grievances, if any: Mr. S.V Raju, Deputy Vice President, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, India. Toll-free No.: 1800-309-4001 (from 9:00 a.m. IST to 5:00 p.m. IST) E-mail: evoting@kfintech.com

By order of the Board of Directors
Place: Mumbai
Date: October 24, 2021
Ajay Singh
Head Corporate & Legal, Company Secretary & Chief Compliance Officer (FCS 5189)

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हनुमान भवन-11, कर्मचारी कॉम्प्लेक्स, नंगला रोड, नई दिल्ली-110046
 वेबसाइट : www.lumaxworld.in/lumaxindustries दूरभाष : 011-49857832
 ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com, सीईओएड : L74899DL1981PLCO12804

सूचना
 एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के शेयरधारकों के निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र मूल / खोए गए सूचित किए गए हैं तथा कम्पनी निम्नलिखित शेयरधारकों को बुलीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया कर रही है:

क्र. सं.	शेयरधारक के नाम	फोलियो सं.	प्रमाणपत्र सं.	हिसाब नंबर	शेयरों की सं.
1	सुशीला सेठ	एच 003357	93635	4328961	4328965
2	सीमा अग्रवाल	एच 006331	136567	8032531	8032550
	कुल				45

किसी व्यक्ति का यदि उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा है तो उसे कम्पनी के ऊपर उल्लिखित एजीक्यूटिव पर इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 15 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात कम्पनी द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कम्पनी द्वारा बुलीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी।

कुल ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 पंजीकृत महानगर
 कम्पनी सचिव
 स्थिति : नई दिल्ली
 तिथि : 23.10.2021
 सदस्यता संख्या : ए 28161

बैंक ऑफ इंडिया
 बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
 द्वारका शाखा, नई दिल्ली 110078;
 फोन: 011-46052874

बैंक ऑफ इंडिया
 जबकि अधोहस्ताक्षरी ने विविध परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (‘‘निियम’’) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रस्तावित शर्तियों को अंतर्गत करवाते श्रीमती बंधुलक्ष्मी शार और श्री सुधीर कुमार राय (मूख्य देनदार) को एक मांग सूचना दिनांक 05.04.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लिखित राशि रु. 3,98,72,795.21/- (रुपये तीन करोड़ अठ्ठावन लाख अठ्ठावन हजार सात सौ पचासवने और इक्कीस पैसे मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्मचारी शाखा का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा कर्जदार, गारंटर तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इंडिया, द्वारका शाखा के प्रचार वाले रु. 3,98,72,795.21/- (रुपये तीन करोड़ अठ्ठावन लाख अठ्ठावन हजार सात सौ पचासवने और इक्कीस पैसे मात्र) और उस पर होने वाला कर्जा इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एवं की धारा 13 की उपधारा (b), के प्राधान्यों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समग्र सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अवल संपत्तियों का विवरण
 संपत्ति के सभी मांग व अंश जिसमें प्लॉट नं. 102, ब्लॉक-बी, सेक्टर-50, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.-201301
 बौद्ध-बी-1
 उत्तर की ओर: प्लॉट नं.- सी-107, दक्षिण की ओर: प्लॉट नं.- सी-101
 पूर्व की ओर: प्लॉट नं.- सी-114, पश्चिम की ओर: प्लॉट नं.- सी-102
 नोएडा-बी-1
 उत्तर की ओर: प्लॉट नंबर- बी-37, दक्षिण की ओर: प्लॉट नंबर- बी-35
 पूर्व की ओर: प्लॉट नंबर- बी-37, पश्चिम की ओर: प्लॉट नंबर- बी-39

दिनांक: 23.10.2021 (अधिकृत अधिकारी)
 स्थान: नई दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया, द्वारका शाखा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
 आसिफ बसुली शाखा, 28/28-डी, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, (कार्यालय) एम-35, प्रथम तल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001)
 परिशिष्ट 6 नियम 8(1) कम्पनी सूचना (अवल संपत्ति हेतु)
 जबकि अधोहस्ताक्षरी ने विविध परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आसिफ बसुली शाखा, 28/28-डी, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (अवल) नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रस्तावित शर्तियों को अंतर्गत करवाते मैसर्स आर के इंडस्ट्रीज उक्त संपत्तियों / गारंटर के एक मांग सूचना दिनांक 01.06.2016 को जारी किया था जिसमें उल्लिखित राशि रु. 19,44,37,053.24 (रु. उन्नीस करोड़ चौबीस लाख सैतीस हजार तिरपन और पैसे चौबीस मात्र) दिनांक 30.05.2016 तक और दिनांक 01.06.2016 से पश्चिम का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त संपत्ति का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सूचना हित प्रवर्तन के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रस्तावित शर्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 20.10.2021 को कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 28/28-डी, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के प्रचार वाले राशि रु. 19,44,37,053.24 (रु. उन्नीस करोड़ चौबीस लाख सैतीस हजार तिरपन और पैसे चौबीस मात्र) और पश्चिम का ब्याज / बैंक प्रचार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एवं की धारा 13 की उप धारा (b), के प्राधान्यों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समग्र सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अवल / बंधक संपत्तियों का विवरण
 1. सम्पूर्ण बसुली 10% अधिभाजित अधिनियम के साथ तथा निम्नलिखित अधिकारों में प्लॉट नं. 62, सुखदेव विहार, नई दिल्ली 110025 में स्थित
 2. सम्पूर्ण भूतल, फ्री लॉन सहित और पीछे का कोर्ट यार्ड, एक सर्वेट बॉयट, शीर्ष छत पर बंधक और इमारत के अंदर आम ब्राइड रास्ते में एक कार पार्किंग की जगह, और वही समीपवर्ती ब्राइड रास्ता जो मूनि के प्लॉट नंबर 62 में 30% अधिभाजित अधिनियम और अधिनियम स्वामित्व अधिकारों के साथ फ्री कोर्ट यार्ड का हिस्सा है, लेआउट प्लान सराय जुलेना को-ऑपरेटिव सिडिग हाउस सोसाइटी, पिरो अब सुखदेव विहार कहेते है, नई दिल्ली-110025 में स्थित
 दिनांक: 20.10.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.
 C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058
 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044
 E-mail: legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of ‘‘The Kangra Co-operative Bank Ltd.’’, Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi-110058, having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated: 03-02-2021, calling upon the borrower namely Sh.Rishi Raj Saini S/o. Sh.Amar Singh Saini R/o. 9012/14B, Sidhi Pura, Karol Bagh, New Delhi-110005, and calling upon the mortgagor Smt. Babita Saini W/o. Sh. Rishi Raj Saini, R/o. 9012/14B, Sidhi Pura, Karol Bagh, New Delhi-110005, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.37,32,419/- (Rupees Thirty Seven Lakhs Thirty Two Thousand Four Hundred Nineteen Only) together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower, mortgagor & Surety having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor & Surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 21st day of October 2021.

The borrower, mortgagor & Surety in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of ‘‘The Kangra Co-operative Bank Ltd.’’, for an amount of Rs.37,32,419/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount.

The borrower, mortgagor & Surety attention is also being invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY
 The property under consideration is Built up property up to 56 sq. yards area measuring 56 sq. yds.

All the part and parcel of the BUILT-UP PROPERTY CONSISTING OF WHATSOEVER THEREON WITH THE RIGHTS OF UPPER CONSTRUCTION UP TO THE LAST STOREY, BEARING PROPERTY NO.9012(1)2, AREA MEASURING NEAR ABOUT 56 SQ. YDS. WARD NO.14, SITUATED AT GALI SAJMAN, SHIDI PURA, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005, falling Under the Registration of Sub-Registrar II, Delhi.

(HARISH SHARMA) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58.

DELHI. DATED : 21.10.2021

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.
 C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058
 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044
 E-mail: legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of ‘‘The Kangra Co-operative Bank Ltd.’’, Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi-110058, having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated: 22-01-2018, calling upon the borrower & Mortgagor namely Sh.Rajender Prasad Diwedi S/o. Sh. Ram Pal Diwedi R/o. H.No.5291, Bharat Nagar, Shora Kolhi, Paharganj, Near Kamal Singh Stadium, New Delhi-110055, also on Sh.Rajender Prasad Diwedi S/o. Sh. Ram Pal Diwedi, C/o. M/s. Salexpress, Shop No.2527, Asaf Ali Road, Near Hamard Diwedi, New Delhi-110002, and Sh. Rajender Prasad Diwedi S/o. Sh. Ram Pal Diwedi, LIG Flat No.38 E, 4. Floor, PkT-3, Sector-3, Dwarka, New Delhi-110075, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 10,33,233/- (Rupees Ten Lakhs Thirty Three Thousand Two Hundred Thirty Three Only) together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower & mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower & mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 21st day of October 2021.

The borrower & mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of ‘‘The Kangra Co-operative Bank Ltd.’’, for an amount of Rs.10,33,233/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount.

The borrower & mortgagor attention is also being invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY
 The property under consideration is built up DDALIG Flat on 4th Floor.

All the part and parcel of the FREE-HOLD DDA BUILT UP LIG FLAT NO. 38E, FOURTH FLOOR, BLOCK-C, SECTOR-3, DWARKA, RESIDENTIAL SCHEME, DWARKA, NEW DELHI-110075 Falling Under the Registration of Sub-Registrar IX, Delhi.

(HARISH SHARMA) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58.

DELHI. DATED : 21.10.2021

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.
 C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058
 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044
 E-mail: legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of ‘‘The Kangra Co-operative Bank Ltd.’’, Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi-110058, having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated: 13-07-2021, calling upon the borrower & Mortgagor namely Sh.Rama Shankar S/o. Sh.Nanku Ram R/o. RZ-114 T Extn., Vishvas Park, D.K.Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 and C/o. M/s. Shankar Paneer Bhandar, Shop No.30, Rattan Market, Sabzi Mandi, Nehru Bazar, Paharganj, Delhi-110055, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.14,27,918.86 (Rupees Fourteen Lakhs Twenty Seven Thousand Nine Hundred Eighteen and Paise Eighty Six Only) together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower & mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower & mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

The borrower & mortgagor attention is also being invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY
 The property under consideration is Front side portion of Second Floor with roof rights area Measuring 75 sq. yds.

All the part and parcel of the FRONT SIDE PORTION OF SECOND FLOOR, WITH ROOF RIGHTS, AREA MEASURING 75 SQUARE YARDS, OUT OF ABOVE BUILT UP PROPERTY BEARING NO. RA-1-114, AREA MEASURING 150 SQUARE YARDS, (125.4 SQUARE METERS), OUT OF KHASRA NO.334, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE BINDA PUR, DELHI STATE COLONY KNOWN AS T-BLOCK, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059, WITH CAR PARKING RIGHTS IN THE PARKING AREA OF THE SAID PROPERTY, ALONGWITH COMMON STAIRCASE AND PASSAGE RIGHTS. Falling Under the Registration of Sub-Registrar II, Delhi.

(HARISH SHARMA) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58.

DELHI. DATED : 21.10.2021

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
 संपर्क पता: 7वीं मंजिल विडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालयन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055, भारत

मांग सूचना
 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (‘‘निियम’’) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (‘‘अधिनियम’’) की धारा 13(2) के तहत

सेवा में,
 1. मैसर्स वीईईएसएस इंटरप्राइजेज, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, 16, मोनाक्षी परिसर, मुख्य दादरी रोड, भंगोल नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 2. विजय सिंह, ए-811,8वीं मंजिल, एस सिटी, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306
 साथ ही: ग्राम नागला चरणदास, फेज-II, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 3. श्रीमती शानु, ए-811,8वीं मंजिल, एस सिटी, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306
 साथ ही: ग्राम नागला चरणदास, फेज-II, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 प्रिय श्रीमान/मैडम,
 अज्ञात सं. 21795923 (रीट्यूकर्वर्ड अज्ञात सं. TCFLA0359000011113838) तथा TCFLA0359000010866740 के तहत 21.10.2021 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (इसके पश्चात ‘‘टीसीएफएसएल’’ संदर्भित) द्वारा आपका 22.08.2019 एवं 17.07.2020 को दायित्व होम इक्विटी (लैप) अज्ञात सं. 21795923 के तहत टीसीएफएसएल का ब्याज सहित रु. 58,23,133/- (रुपये अठ्ठावन लाख तैंस हजार एक सौ तैंसीस मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकायों में आपके पुनर्भुगतान में चूक के कारण आबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 03.09.2021 को पुनर्भूत खता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्राधान्यों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की शक्तियों के उपयोग में 21.10.2021 को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कथित अज्ञात राशि रु. 58,23,133/- का भावी ब्याज एवं लागतों सहित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सूचना जारी की थी, जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सूचित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपयोग करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची
 संपत्ति संख्या 1; आवासीय फ्लैट/आवासीय इकाई संख्या ए-811, टावर-ए में अटवॉर्न मंजिल पर, कुल सूर्य परिया अनुमापित 1090 वर्ग फीट (101.26 वर्ग मीटर) और विटल अर परिया 698 वर्ग फीट (64.85 वर्ग मीटर), एस सिटी, प्लॉट नंबर जीओपी 01 नं निर्मित, सेक्टर 01, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, विशेष रूप से परटा विलेज दिनांक 16.04.2019 में वर्णित, विजय सिंह के पक्ष में स्थित।
 संपत्ति संख्या 2: आवासीय फ्लैट संख्या 3, क्षेत्रफल 29.76 वर्ग मीटर, पहली मंजिल, ब्लॉक 107, सेक्टर 10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से हस्तांतरण विलेज दिनांक 05.09.2018 में वर्णित, विजय सिंह के पक्ष में स्थित।

मांग सूचना दिनांक 21.10.2021 को प्रभावी सख्त सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम एतद्वारा वर्तमान प्रकाशन के माध्यम से कथित सूचना की सर्विस दे रहे हैं। एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों का अंतरण विक्रय, परटे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे।

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
 स्थिति : उत्तर प्रदेश
 तिथि : 24.10.2021 टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
 संपर्क पता: 7वीं मंजिल विडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालयन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055, भारत

मांग सूचना
 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (‘‘निियम’’) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (‘‘अधिनियम’’) की धारा 13(2) के तहत

सेवा में,
 1. मैसर्स वीईईएसएस इंटरप्राइजेज, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, 16, मोनाक्षी परिसर, मुख्य दादरी रोड, भंगोल नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 2. विजय सिंह, ए-811,8वीं मंजिल, एस सिटी, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306
 साथ ही: ग्राम नागला चरणदास, फेज-II, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 3. श्रीमती शानु, ए-811,8वीं मंजिल, एस सिटी, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306
 साथ ही: ग्राम नागला चरणदास, फेज-II, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 प्रिय श्रीमान/मैडम,
 अज्ञात सं. 21795923 (रीट्यूकर्वर्ड अज्ञात सं. TCFLA0359000011113838) तथा TCFLA0359000010866740 के तहत 21.10.2021 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (इसके पश्चात ‘‘टीसीएफएसएल’’ संदर्भित) द्वारा आपका 22.08.2019 एवं 17.07.2020 को दायित्व होम इक्विटी (लैप) अज्ञात सं. 21795923 के तहत टीसीएफएसएल का ब्याज सहित रु. 58,23,133/- (रुपये अठ्ठावन लाख तैंस हजार एक सौ तैंसीस मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकायों में आपके पुनर्भुगतान में चूक के कारण आबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 03.09.2021 को पुनर्भूत खता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्राधान्यों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की शक्तियों के उपयोग में 21.10.2021 को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कथित अज्ञात राशि रु. 58,23,133/- का भावी ब्याज एवं लागतों सहित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सूचना जारी की थी, जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सूचित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपयोग करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची
 संपत्ति संख्या 1; आवासीय फ्लैट/आवासीय इकाई संख्या ए-811, टावर-ए में अटवॉर्न मंजिल पर, कुल सूर्य परिया अनुमापित 1090 वर्ग फीट (101.26 वर्ग मीटर) और विटल अर परिया 698 वर्ग फीट (64.85 वर्ग मीटर), एस सिटी, प्लॉट नंबर जीओपी 01 नं निर्मित, सेक्टर 01, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, विशेष रूप से परटा विलेज दिनांक 16.04.2019 में वर्णित, विजय सिंह के पक्ष में स्थित।
 संपत्ति संख्या 2: आवासीय फ्लैट संख्या 3, क्षेत्रफल 29.76 वर्ग मीटर, पहली मंजिल, ब्लॉक 107, सेक्टर 10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से हस्तांतरण विलेज दिनांक 05.09.2018 में वर्णित, विजय सिंह के पक्ष में स्थित।

मांग सूचना दिनांक 21.10.2021 को प्रभावी सख्त सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम एतद्वारा वर्तमान प्रकाशन के माध्यम से कथित सूचना की सर्विस दे रहे हैं। एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों का अंतरण विक्रय, परटे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे।

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
 स्थिति : उत्तर प्रदेश
 तिथि : 24.10.2021 टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.
 C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058
 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044
 E-mail: legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of ‘‘The Kangra Co-operative Bank Ltd.’’, Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi-110058, having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated: 28-12-2021, calling upon the borrower & Mortgagor namely Sh.Rajesh Kumar S/o. Sh. Sh.Som Dutt R/o. B-24, Jagatpuri, 2nd Floor, Delhi-110051, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.10,46,600/- (Rupees Ten Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred Only) together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower & mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower & mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 21th day of October 2021.

The borrower & mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of ‘‘The Kangra Co-operative Bank Ltd.’’, for an amount of Rs.10,46,600/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount.

The borrower & mortgagor attention is also being invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY
 The property under consideration is Built up Third Floor portion with roof rights area Measuring 50 sq.yds.

All the part and parcel of the property namely : BUILT UP THIRD FLOOR PORTION WITH ROOF RIGHTS, WITH COMMON ENTRANCE, COMMON PASSAGE, COMMON ONE SCOOTER PARKING SPACE ON GROUND FLOOR AND COMMON STAIRS FROM GROUND FLOOR ONWARDS, CONSISTING OF TWO PLUS ONE ROOM SET, BUILT ON PORTION OF PROPERTY BEARING NO.B-24, AREA MEASURING 41.8 SQ. MTRS. (50 SQ. YDS.) OUT OF KHASRA NO.1627, SITUATED IN THE ABADI OF GALI NO.1, JAGATPURI, VILLAGE KHUREJI KHAS, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110051, Falling Under the Registration of Sub-Registrar-VIIIA, Preet Vihar, Delhi.

(HARISH SHARMA) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58.

DELHI. DATED : 21.10.2021

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
 संपर्क पता: 7वीं मंजिल विडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालयन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055, भारत

मांग सूचना
 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (‘‘निियम’’) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (‘‘अधिनियम’’) की धारा 13(2) के तहत

सेवा में,
 1. मैसर्स वीईईएसएस इंटरप्राइजेज, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, 16, मोनाक्षी परिसर, मुख्य दादरी रोड, भंगोल नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 2. विजय सिंह, ए-811,8वीं मंजिल, एस सिटी, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306
 साथ ही: ग्राम नागला चरणदास, फेज-II, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 3. श्रीमती शानु, ए-811,8वीं मंजिल, एस सिटी, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306
 साथ ही: ग्राम नागला चरणदास, फेज-II, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301
 प्रिय श्रीमान/मैडम,
 अज्ञात सं. 21795923 (रीट्यूकर्वर्ड अज्ञात सं. TCFLA0359000011113838) तथा TCFLA0359000010866740 के तहत 21.10.2021 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (इसके पश्चात ‘‘टीसीएफएसएल’’ संदर्भित) द्वारा आपका 22.08.2019 एवं 17.07.2020 को दायित्व होम इक्विटी (लैप) अज्ञात सं. 21795923 के तहत टीसीएफएसएल का ब्याज सहित रु. 58,23,133/- (रुपये अठ्ठावन लाख तैंस हजार एक सौ तैंसीस मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकायों में आपके पुनर्भुगतान में चूक के कारण आबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 03.09.2021 को पुनर्भूत खता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने